

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 1977/ कार्तिक 28, 1899

No 374] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 1977/KARTIKA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November 1977

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (h) of section 2 of the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976 (89 of 1976) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) number S.O. 740(E) dated the 31st October, 1977, the Central Government hereby specifies the 26th November 1977, as the date on or before which the instrument of transfer of share referred to in that sub-clause shall be delivered to the Commissioner for the purposes of that sub-clause

[No. 8(100)/77-KL]

S D PRASAD, Addl Secy

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर 1977

सा० का० नि० 711(अ) — इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयर का अजन) अधिनियम, 1976 (1976 का 89) की धारा 2 के खण्ड (एच) के उप-खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) की दिनांक 31 अक्टूबर, 1977 की अधिसूचना सा० का० नि० 740 (ई) का अति क्रमण करने हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसी तारीख 26 नवम्बर 1977 विनिर्दिष्ट करती है जिसको अथवा जिससे पहले उक्त उप-खण्ड में उल्लिखित शेयर का अन्तरण-लिखित उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए आयुक्त को दी जायेगी

[म० 8(100) 77-क०आई०]

शिवराज देव प्रसाद अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977